

## पारिवारिक बजट का अर्थ तथा परिभाषा (MEANING AND DEFINITION OF FAMILY BUDGET)

निरन्तर ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक परिवार द्वारा धन व्यय किया जाता है। परिवार की आय में से ही यह व्यय किया जाता है। इस प्रकार परिवार में आय एवं व्यय का एक चक्र संचालित रहता है। एक सुनियोजित विधि द्वारा परिवार में होने वाले आय-व्यय के विस्तृत व्यौरे को ही 'बजट' कहा जाता है। "पारिवारिक बजट किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाले आय-व्यय को प्रदर्शित करने वाला प्रपत्र होता है।" आगामी माह या आगामी वर्ष में होने वाले आय-व्यय का अनुमानित प्रारूप भी पारिवारिक बजट में निहित होता है।

कुछ गृह-वैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित की गई परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

1. वेबर ने पारिवारिक बजट के अर्थ के स्पष्टीकरण हेतु उसकी उपयोगिता का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार—“पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है, जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। पारिवारिक बजट असावधानी पूर्वक तथा अव्यवस्थित रूप से खर्च करने के तरीके के स्थान पर योजनाबद्ध तथा विवेकपूर्ण रूप से व्यय को प्रतिस्थापित करने का तरीका है।”

2. क्रेग एवं रश द्वारा पारिवारिक बजट का स्वीकरण गृह-व्यवस्था में नियोजन हेतु एक आवश्यक साधन के रूप में किया गया है। उनके अनुसार—“बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्ययों का लेखा-जोखा है।” इस परिभाषा में बजट के स्वरूप के स्पष्टीकरण के साथ ही बजट निर्माण की प्रक्रिया की ओर भी संकेत किया गया है।

3. मार्शल के अनुसार, “बजट किसी परिवार की आय-व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है।” दूसरे शब्दों में, किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय-व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं।

4. वर्गीज, ओगेल एवं श्रीनिवास के अनुसार, “बजट एक दी हुई आय में एक निश्चित अवधि, जैसे—एक सप्ताह, एक महीना या एक वर्ष में व्यय एवं बचत करने की योजना है।” अर्थात् दूसरे शब्दों में, बजट किसी

निश्चित अवधि में होने वाली निश्चित आय को उस निश्चित अवधि में योजनाबद्ध ढंग से व्यय करने के लिए तैयार किया गया प्रपत्र या लेखा-जोखा है।

## पारिवारिक बजट के उद्देश्य

(OBJECTIVES OF FAMILY BUDGET)

गृह-अर्थव्यवस्था हेतु पारिवारिक बजट एक उपयोगी प्रपत्र होता है। परिवार के सदस्यों की आय-व्यय सन्तुलित एवं नियोजित करना ही इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य होता है। पारिवारिक बजट को निर्मित करने अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—

1. परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय का व्यवस्थित तथा सही विवरण प्राप्त करना।
2. व्ययों का नियोजन करना एवं भविष्य से सम्बन्धित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुचित बचत के प्रयत्न करना।
3. परिवार के किसी एक या कुछ सदस्यों द्वारा किए जाने वाले अनावश्यक व्ययों पर नियन्त्रण करना।
4. परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं के समुचित ज्ञान की प्राप्ति करना एवं उनकी पूर्ति।
5. इस प्रकार पारिवारिक व्यय का नियोजन करना, जिसके द्वारा भविष्य में घटित होने वाली आकस्मिक आवश्यकताओं का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके।
6. परिवार के आय-व्यय के अनुपात का ज्ञान करना एवं इसके आधार पर रहन-सहन के स्तर को ऊँचा बनाने हेतु उपाय सोचना।
7. परिवार की आय में आवश्यक वृद्धि करने के लिए परिवार के मुखिया तथा अन्य वरिष्ठ सदस्यों को प्रेरित करना।

## पारिवारिक बजट की प्रमुख मद्देन